

Dated: 08.01.2026

To,
Listing Department
BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street, Mumbai - 400 001,
Maharashtra, India

Scrip Code: 544568
Scrip ID: ZAPPFRESH

Subject: - Newspaper Advertisement — Disclosure under Regulation 30 and Regulation 47 (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

Dear Sir / Madam,

Pursuant to the provisions of Regulation 30 read with Schedule III and Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we submit herewith copies of the newspaper advertisements published by the Company in Financial Express (English language Newspaper) and Jansatta (Hindi Language Newspaper) on 8th January 2026 in respect of the Postal ballot notice of the Company dispatched on 7th January 2026.

The newspaper publication is also available on the Company's website at <https://zappfresh.com/investors>

You are requested to kindly take the above information on record.

Thanking you,
Yours faithfully,

For DSM Fresh Foods Limited
(Formerly Known as DSM Fresh Foods Private Limited)

Deepanshu Manchanda
Managing Director
DIN: 07108044

Rupee rises 29 paise to 89.89 on RBI intervention

DHARAMRAJ DHUTIA
Mumbai, January 7

THE RUPEE ENDED higher for second consecutive session on Wednesday on likely dollar sales from state-run banks, which traders said could be on behalf of the central bank, helping reverse the pressure from slightly softer Asian cues. The rupee gained 29 paise, or 0.3%, to close at 89.89, its highest level in a week, after closing at 90.1650 in the previous session. It hit an intraday high of 89.86.

The Reserve Bank of India (RBI) resorted to heavy intervention to support the rupee once again, nine traders said, and that pushed the currency to below the 90-per-dollar mark.


Wednesday's intervention followed a familiar playbook that the RBI used repeatedly last year, when it stepped in aggressively to push the rupee higher, aiming to disrupt one-way moves.

Previous interventions came amid a build-up of speculative long dollar positions and expectations of consistent rupee depreciation, according to bankers.

Before the central bank intervention on Wednesday, the rupee had fallen about 1% over the past two weeks.

The currency rupee continues to face headwinds from persistent foreign selling of equities, a trend that has extended from 2025 into the New Year, alongside lingering uncertainty over a US-India trade deal.

"Going forward, resilient macro fundamentals and an improvement in capital flows



as US-related trade uncertainty eases should reduce pressure on the rupee. However, we expect the currency to remain range bound, as the RBI rebuilds forex reserves if portfolio inflows recover," Goldman Sachs said in a note.


UBS sees rupee at 92 by March

UBS Investment Bank expects the rupee to weaken to 92 per US dollar by March, making the case that any relief from a potential US-India trade deal announcement would likely be undermined by the central bank replenishing foreign exchange reserves.

From near-90-per-dollar levels currently, UBS's forecast implies a roughly 2% depreciation over three months, well beyond the March forward rate that's near 90.55 and a marked change from its November 2024 call of 87. —REUTERS

Aditya Birla AMC sees 12% return from equities

LARGE-CAPS BETTER POSITIONED



ANANYA GROVER
Mumbai, January 7

ADITYA BIRLA SUN Life AMC expects equity returns in 2026 to be broadly in line with the previous calendar year, at around 10-12%, and believes large-cap stocks are better positioned at this stage of the cycle, as the phase of indiscriminate outperformance in small and mid-caps is behind.

The AMC said that while the rupee could pose a short-term challenge, it represents a long-term opportunity. A trade deal, it added, would help arrest excessive currency depreciation and could act as a trigger for renewed foreign institutional investor (FII) inflows. It mentioned that investors could have a better experience this year, supported by a turnaround in sentiment, improving earnings breadth and momentum, continued strong domestic liquidity, prospects of a return of foreign portfolio investor (FPI) flows, and valuations that are more compressed than last year.

The AMC said its focus has shifted towards compounder sectors, with IT, FMCG and materials expected to be potential dark horses. Speaking at the company's annual market outlook, Harish Krishnan, co-chief investment officer and head of equity investments, said: "The current market cap-

italisation of India is at about 3.6% of the world market cap, and it presents a wonderful opportunity for foreign long-term allocators of capital, the only thing they have to wait for is when the rupee is going to stabilise, that is where they are losing most of their sleep on rather than their equity value."

"As and when trade deal does get announced, we are going to see a flurry of foreign investor money to India," he added. The AMC noted that the profit pool of the top 1,000 listed companies has grown 11% year-on-year, while market capitalisation has risen only 6% as of November-end. This, it said, increases the likelihood of new market highs this year, driven by stronger earnings growth, lower rupee depreciation and new listings.

Krishnan said the aspect really is that which part of the market is likely to capture the upside because a lot of money seems to have gone into areas, sectors, and themes which played out wonderfully from 2020-24 but not necessarily moved to the new themes. He noted that the share of MF ownership in top 100 profit pool share of top 100 and said that there has been a significant amount of money that has been chasing small caps in the last two-three years.

Indian Gas Exchange to launch IPO by Dec

INDIAN GAS EXCHANGE, the country's first online delivery-based trading platform for natural gas, is likely to launch an initial public offering (IPO) by

December this year, its Managing Director and CEO Rajesh Kumar Mediratta said on Wednesday. Indian Energy Exchange (IEX) holds a 47%

stake in IGX, and as per regulations, it has to bring it down to 25%. "As much as 2.2% equity shares are likely to be offered in the share sale," he said. PTI

DSM FRESH FOODS LIMITED
CIN: L52203DL2015PLC280514
Registered Office: 115-116, First Floor, Vishal Tower, District Centre, Janakpuri B-1, West Delhi, India, 110058
Website: www.zappfresh.com, Email: finance@zappfresh.com

Notice is hereby given that pursuant to the provisions of Section 110, 118 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 (Act) (including any statutory modifications or re-enactment thereof for the time being in force), read with Rule 20 and 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 ("Rules"), Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations"), Secretarial Standard on General Meetings issued by the Institute of Company Secretaries of India ("SSS-21"), each as amended, and in accordance with the guidelines prescribed by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") for holding General Meetings / conducting postal ballot process through e-voting vide General Circular Nos 14/2020 dated April 8, 2020, 17/2020 dated April 13, 2020, 22/2020 dated May 5, 2020 and subsequent circulars issued in this regard, the latest being 09/2024 dated September 19, 2024 (Collectively referred as "MCA Circulars"), to transact the special business as set out hereunder by passing a special Resolution by way of postal ballot only by voting through electronic means (remote e-voting).

S. No.	Brief Description of Resolution	Type of resolution
1	Variation in the Objects / Terms of Utilisation of The Initial Public Offering ("IPO") Proceeds	Special Resolution
2	Alteration in the object clause of the company	Special Resolution

Members are hereby informed that pursuant to the MCA Circulars, the Company on Wednesday, January 07, 2026 has completed the dispatch of the postal ballot Notice dated December 31, 2025 electronically to all the members of the Company, whose name appears on the Register of Members/ List of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on Cut-off date i.e., January 02, 2026 and who have registered their e-mail addresses in respect of electronic holdings with the Depositories through their respective Depository Participants and with the Company's Registrar and Share Transfer Agents i.e., Maashila Securities Private Limited (RTA). A person who is not a Member on the cut-off date should accordingly treat the Postal Ballot Notice as information purpose only.

The Postal Ballot Notice along with Explanatory Statement has been uploaded on the website of the Company <https://www.zappfresh.com> and can be accessed from the website of BSE Limited at www.bseindia.com and is also available on the website of "CDSL" www.evotingindia.com.

In compliance with Regulation 44 of SEBI Listing Regulations and Section 108 and 110 of the Companies Act, 2013, read with rule 20 & 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended and the relevant Circulars, the Company is providing facility for voting through e-voting to enable its members to cast their votes electronically in respect of the Resolutions as set out in this postal Ballot Notice. For this purpose, the Company has engaged the services of Central Depository Services (India) Limited (CDSL) and has also made necessary arrangements with its RTA to facilitate e-voting. In terms of MCA Circulars, Voting can be done only through remote e-voting. E-voting will commence at 09:00 a.m. (IST) on Thursday, January 8th, 2026 and end at 05:00 p.m. (IST) on Friday, February 06, 2026. The resolution under the postal ballot notice, if passes by the members, shall be deemed to have passed on the last date specified by the Company for E-voting i.e. Friday, February 06, 2026.

Members are requested to update their email id & mobile no. with your respective Depository Participant (DP) which is mandatory for e-Voting through Depository.

The Board of Directors of the Company on December 31, 2025 appointed Rawal & Co, Company Secretaries (Membership No. 43231 & CP No. 22687) as the Scrutinizer for conducting the postal ballot and e-voting process in accordance with law and in a fair and transparent manner. The results of the Postal Ballot together with the Scrutinizers Report will be posted on the Company's website <https://www.zappfresh.com> and will also be communicated to the BSE Limited on or before Tuesday February 10, 2026.

If you have any queries or issues regarding Postal ballot & e-Voting from the CDSL e-Voting System, you can write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at toll free no. 1800 21 09911 All grievances connected with the facility for voting by electronic means may be addressed to Mr. Rakesh Dalvi, Sr. Manager, (CDSL,) Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Futrex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400013 or send an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call toll free no. 1800 21 09911.

Helpdesk for Individual Members holding securities in demat mode for any technical issues related to login through Depository i.e. NSDL and CDSL:

Login type	Helpdesk details
Individual Members holding securities in demat mode with CDSL	Members facing any technical issue in login can contact CDSL helpdesk by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at toll free no. 1800-21-09911
Individual Members holding securities in demat mode with NSDL	Members facing any technical issue in login can contact NSDL helpdesk by sending a request at evoting@nsdl.com or call at 022-4886 7000

By order of Board of Directors
Sd/-
Deepanshu Manchanda
Managing Director
DIN: 07108044

Place: New Delhi
Date: 08.01.2026

JMJ FINTECH LIMITED
Corporate Identification Number : L51102TZ1982PLC029253
Registered Office : Shop No. 3, 1st Floor, Adhi Vinayaga Complex, No. 3, Bus Stand, Gopalsamy Temple Street, Ganapathy, Coimbatore, Ganapathy, Coimbatore North, Tamil Nadu, India, 641006
Telephone : 7395922291; E-mail : investor@jmjfinchtd.com; Website : www.jmjfinchtd.com
Contact Person : Mrs. Vidya Damodaran, Company Secretary and Compliance Officer

This advertisement is for intimation purpose only and not for publication, distribution or release directly or indirectly outside India. This is not an announcement for the offer document. All capitalized terms used and not defined herein shall have the same meaning assigned to them in the letter of offer dated July 12, 2025 filed with BSE Limited ("BSE") (hereinafter referred to as "Stock Exchange") and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI").

FOR THE ATTENTION OF SHAREHOLDERS OF PARTLY PAID-UP EQUITY SHARES

CORRIGENDUM TO THE FIRST AND FINAL CALL NOTICE TO THE HOLDERS OF PARTLY PAID-UP EQUITY SHARES (ISIN-IN9242Q01014) OF JMJ FINTECH LIMITED ("COMPANY") HELD AS ON THE RECORD DATE i.e., FRIDAY, DECEMBER 19, 2025

- The Company has completed the dispatch of First and Final Call Notice to the shareholders of partly paid-up equity shares, whose names appeared on the Register of Members as on the record date i.e., Friday, December 19, 2025 ("First and Final Call Record Date") for making the payment of First and Final Call money of ₹ 7.35 per share (comprising ₹ 7.00 towards paid-up per share and ₹ 0.35 towards premium) per partly paid-up Equity Shares ("First and Final Call").
- Pursuant to this Corrigendum to the First and Final Call Notice ("Corrigendum"), the period for payment of money for the First and Final Call shall now commence from Tuesday, January 13, 2026 (instead of Wednesday, January 07, 2026) and shall continue until Tuesday, January 27, 2026. You are accordingly requested to make the payment of money for the First and Final Call between Tuesday, January 13, 2026 and Tuesday, January 27, 2026 (both days inclusive).
- The First and Final Call Notice and this Corrigendum, along with detailed instructions, ASBA application form and payment slip can be downloaded from the Company's website at www.jmjfinchtd.com and on the website of Purva Share Registry (India) Private Limited ("RTA") at www.purvashare.com or from the website of the Stock Exchanges.
- The payment of First and Final Call money can be made by choosing any one of the following modes:

Amount Due	₹ 7.35/- per partly paid-up equity share held by shareholders as on the Record Date.
Call Payment Period	From Tuesday, January 13, 2026 To Tuesday, January 27, 2026 Duration 15 days
Modes of Payment	Online ASBA - Through an online Portal of the SCSBs. Physical ASBA - By submitting physical application to the Designated Branch of SCSBs. 3-in-1 online trading demat bank account

Please visit <https://www.sebi.gov.in/sebiweb/other/OtherAction.do?doRecognisedFpyres&intrmid=34> to refer to the list of existing SCSBs (Self-Certified Syndicate Banks).

In accordance with the SEBI circular no. SEBI/HO/CFD/PoD-1/P/CIR/2024/0154 dated November 11, 2024 shareholders can also make the First and Final Call Money payment by using the facility of linked online trading-demat-bank account [3-in-1 type accounts], provided by some of the brokers. Shareholders must log into their demat account and under the relevant section proceed with the payment for First and Final Call Money of JMJ Fintech Limited. Shareholders are requested to check with their respective brokers for exact process to be followed. Shareholders may please note that this payment method can be used only if the concerned broker has made this facility available to their customer. The Company or the Registrar will not be responsible for non-availability of this payment method to the shareholders.

- Please note that the trading of ₹ 07.35 partly paid-up equity shares of the Company (ISIN: IN9242Q01014) has been suspended on the Stock Exchange with effect from Friday, December 19, 2025 on account of the First and Final Call. Eligible Shareholders who pay the First and Final Call on their Rights Equity Shares can expect credit of the fully paid-up equity shares of the Company and the commencement of trading on such fully paid-up equity shares within a period of 7-8 weeks from the last date for making the payment of First and Final Call i.e., within 7-8 weeks from Tuesday, January 27, 2026.
- Please also note the consequences of failure to pay First and Final Call Money is given below:
 - Interest @ 10.00% (Ten per cent only) p.a. will be payable for delay in payment of First and Final Call beyond Tuesday, January 27, 2026 till the actual date of payment;
 - The Company shall be entitled to deduct from any future dividend payable to you, all sums of money outstanding on account of calls and interest, due thereon in relation to the partly paid-up equity shares of the Company; and
 - The partly paid-up equity shares of the Company currently held by you, including the amount already paid thereon may be liable to be forfeited on failure to pay the first call, in accordance with the Articles of Association of the Company and the Letter of Offer.
- Eligible Shareholders may also note that:
 - FAQs on First and Final Call are available on the website of the Company www.jmjfinchtd.com and on the website of Purva Share Registry (India) Private Limited ("RTA") at www.purvashare.com
 - You may also seek clarifications on any query related to the payment of First and Final Call on the Mobile Number +917395922291/92 (Operational from Monday to Saturday from 9 AM to 5 PM).
 - All correspondence in this regard may be sent to RTA at below mentioned address/ email address:

PURVA SHAREREGISTRY (INDIA) PRIVATE LIMITED
9 Shiv Shakti Industrial Estate, J.R. Boricha Marg, Near Lodha Excelus, Lower Parel East, Mumbai - 400 011, Maharashtra, India;
Tel. : 022-23010771 / 49614132;
E-mail : support@purvashare.com
Website : www.purvashare.com
Contact Person : Ms. Deepali Dhuri
SEBI Registration Number : INF000001112
Sd/-
Joju Madathumpady Johny
Managing Director
DIN : 02712125

Place : Coimbatore
Date : January 06, 2026

SHENTRAON CHEMICALS LIMITED
Corporate Identification Number: L24299WB1993PLC059449
Registered Office: 6A, 3rd Floor, Kiran Shankar Roy Road, Near High Court Kolkata, Kolkata, West Bengal, 700001
Tel No.: 033-22489731 / 9538; Website: www.shentraon.co; Email: investor@shentraon.com

Recommendations of the Committee of Independent Directors ("IDC") of SHENTRAON CHEMICALS LIMITED ("SCL" or "Target Company") on the Open Offer made by Mr. Amit Lalit Jain (Acquirer 1) and Mr. Hanish Kanakraj Jaan (Acquirer 2) (hereinafter referred to as "Acquirers") to the Shareholders of the Target Company under Regulation 26(7) of the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011 including subsequent amendments thereto (SEBI (SAST) Regulations).

Sl. No.	Date	Thursdays, January 08, 2026
1.	Date	Thursdays, January 08, 2026
2.	Name of the Target Company	Shentraon Chemicals Limited
3.	Details of the Offer pertaining to the Target Company	This Offer is being made by Mr. Amit Lalit Jain (Acquirer 1) and Mr. Hanish Kanakraj Jaan (Acquirer 2) pursuant to the provisions of Regulations 3 and 4 of the SEBI (SAST) Regulations, for acquisition of upto 11,53,917 (Eleven Lakh Fifty Three Thousand Nine Hundred and Seventeen) Equity Shares of ₹ 10/- each representing 26.00% of the fully Paid up Equity and Voting Share Capital of the Target Company, at a price of ₹ 0.50 (Rupees Zero Point Fifty Paise Only) per Equity Share, payable in cash.
4.	Name of the Acquirer	Mr. Amit Lalit Jain (Acquirer 1) and Mr. Hanish Kanakraj Jaan (Acquirer 2)
5.	Name of the Manager to the Offer	Bonanza Portfolio Limited CIN: U65991DL1993PLC052280 Bonanza House, Plot No. M-2, Cama Industrial Estate, Walhat Road, Behind The Hub, Goregaon (East), Mumbai - 400 063
6.	Members of the Committee of Independent Directors	1. Mr. Ashish Bakliwal, Chairperson 2. Ms. Madhuri Toshniwal, Member
7.	IDC Member's relationship with the Target Company (Directors, Equity Shares owned, any other contract/relationship), if any	a) IDC members are Independent and Non-Executive Directors on the Board of the Target Company. b) None of the IDC member holds Equity Shares in the Target Company. c) None of the IDC member holds any contract or relationship with the Target Company at present.
8.	Trading in the Equity Shares/ other securities of the Target Company by IDC Members	None of the IDC members have traded any Equity Shares/ other securities of the Target Company during a period of 12 months prior to the date of Public Announcement till the date of this recommendation.
9.	IDC Member's relationship with the Acquirer (Directors, Equity Shares owned, any other contract/relationship)	None of the IDC members have any relationship with the Acquirer at present.
10.	Trading in the Equity Shares/ other securities of the Acquirer by IDC Members	Nil
11.	Recommendation on the Offer, as to whether the Offer, is or is not, fair, and reasonable	The IDC members have reviewed the following documents issued by the Manager on behalf of the Acquirer (collectively referred to as the "Offer Documents"): (a) The Public Announcement dated Thursday, September 04, 2025; (b) The Detailed Public Statement published in newspaper on Friday, September 12, 2025; (c) The Draft Letter of Offer dated Friday, September 19, 2025; and (d) the Letter of Offer dated Monday, January 05, 2025. The IDC members believe that Offer is fair and reasonable, in accordance with the provisions of SEBI (SAST) Regulations.
12.	Summary of Reasons of Recommendation	Based on the review of the Offer Documents, the IDC members are of the opinion that the Offer Price of ₹ 0.50 per Equity Shares, offered by the Acquirers is in line with Regulation 8(2) of SEBI (SAST) Regulations and prima facie appears to be justified. The Committee considered the following facts: a) The Equity Shares of the Company are infrequently traded on BSE within the meaning of Regulation 2(1)(j) of SEBI (SAST) Regulations; b) The Offer Price of ₹ 0.50 per Equity Shares is justified in terms of the parameters prescribed under Regulations 8(2) of the SEBI (SAST) Regulations. Keeping in view of the above fact, the IDC members are of the opinion that the Offer Price of ₹ 0.50 (Rupees Zero Point Fifty Paise Only) payable in cash per Equity Share to the Shareholders of the Target Company for this Offer is fair and reasonable. However, the Shareholders should independently evaluate the Offer and take informed decision on the matter.
13.	Details of Independent Advisors, if any	Nil
14.	Disclosure of Voting Pattern of the meeting in which the open offer proposal was discussed	The recommendations were unanimously approved by the members of the IDC.
15.	Any other matter to be highlighted	Nil

To the best of our knowledge and belief, after making proper enquiry, the information contained in or accompanying this statement is, in all material respect, true, correct, and not misleading, whether by omission of any information or otherwise, and includes all the information required to be disclosed by the Target Company under SEBI (SAST) Regulations.

For and on behalf of
Committee of Independent Directors
Shentraon Chemicals Limited
Sd/-
Ashish Bakliwal
(Chairperson of IDC)

Place: Mumbai
Date: January 07, 2026

ICICI Prudential Asset Management Company Limited
Corporate Identity Number: U99999DL1993PLC054135

Registered Office: 12th Floor, Narain Manzil, 23, Barakhamba Road, New Delhi - 110 001.
Corporate Office: ICICI Prudential Mutual Fund Tower, Vakola, Santacruz East, Mumbai - 400 055; Tel: +91 22 6647 0200/2652 5000 Fax: +91 22 6666 6582/83, Website: www.icicipruamc.com, Email id: enquiry@icicipruamc.com
Central Service Office: 2nd Floor, Block B-2, Nirlon Knowledge Park, Western Express Highway, Goregaon (E), Mumbai - 400 063. Tel.: 022 2685 2000 Fax: 022 26868313

Notice to the Investors/Unit holders of ICICI Prudential Quant Fund, ICICI Prudential Transportation and Logistics Fund, ICICI Prudential Flexicap Fund and ICICI Prudential Housing Opportunities Fund (the Schemes)

Notice is hereby given that ICICI Prudential Trust Limited, Trustee to ICICI Prudential Mutual Fund has approved the following distribution under Income Distribution cum capital withdrawal option (IDCW option) of the Schemes, subject to availability of distributable surplus on the record date i.e. on January 12, 2026*:

Name of the Schemes/Plans	Quantum of IDCW (₹ per unit) (Face value of ₹ 10/- each) ^a	NAV as on January 6, 2026 (₹ Per unit)
ICICI Prudential Quant Fund		
IDCW	1.35	16.44
Direct Plan - IDCW	1.35	17.11
ICICI Prudential Transportation and Logistics Fund		
IDCW	1.50	19.68
Direct Plan - IDCW	1.50	20.55
ICICI Prudential Flexicap Fund		
IDCW	1.50	18.32
Direct Plan - IDCW	1.50	19.39
ICICI Prudential Housing Opportunities Fund		
IDCW	1.30	16.31
Direct Plan - IDCW	1.30	17.14

\$ The distribution will be subject to the availability of distributable surplus and may be lower depending upon the extent of distributable surplus available on the record date under the IDCW option of the Schemes.

Subject to deduction of applicable statutory levy, if any.

* or the immediately following Business Day, if that day is a Non - Business Day.

The distribution with respect to IDCW will be done to all the unit holders/beneficial owners whose names appear in the register of unit holders/Statement of beneficial owners maintained by the Depositories, as applicable under the IDCW option of the Schemes, at the close of business hours on the record date.

It should be noted that pursuant to payment of IDCW, the NAV of the IDCW option of the Schemes would fall to the extent of payout and statutory levy (if applicable).

For ICICI Prudential Asset Management Company Limited
Place: Mumbai
Date : January 7, 2026
No. 005/01/2026
Sd/-
Authorised Signatory

To know more, call 1800 222 999/1800 200 6666 or visit www.icicipruamc.com

Investors are requested to periodically review and update their KYC details along with their mobile number and email id.

To increase awareness about Mutual Funds, we regularly conduct Investor Awareness Programs across the country. To know more about it, please visit <https://www.icicipruamc.com> or visit AMFI's website <https://www.amfiindia.com>

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

कार्यालय ग्राम पंचायत फरफाना, वि.ख. भोजपुर (गर्जियाबाद)

पत्रांक: मिमो/ नि०-प्रकाशन/ ग्रामपं० फरफाना/ 2025-26

दिनांक: 07.01.2026

आयत्कालीन निविदा सूचना

ग्राम पंचायत फरफाना विकास खण्ड भोजपुर गार्जियाबाद में राज्य वित्त आयोग / 15वां वित्त आयोग एवं अनुपूर्णा भवन योजनावर्गत वर्ष 2025-26 के सरकारी विभाग में पंजीकृत ठेकेदारी से निम्नलिखित निर्माण कार्यों के निविदाएं दिनांक 13.01.2026 को अपरान्ह 12:00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र दिनांक 09.01.2026 से 12.01.2026 तक कार्यालय समय में ग्राम पंचायत फरफाना, विकास खण्ड भोजपुर (गर्जियाबाद) से निर्धारित शुल्क जमा कर प्राप्त किये जा सकते हैं। निविदा अधिकृत अधिकारियों द्वारा इच्छुक ठेकेदारों की उपस्थिति में दिनांक 13.01.2026 को अपरान्ह 2:00 बजे खोली जायेगी।

क्र. सं.	कार्य का विवरण	अनुमानित धनराशि (रु. में)	घरोहर राशि	निविदा मूल्य + GST	कार्य अवधि
1.	ग्राम पंचायत फरफाना में मॉडल उचित दर की दुकान (अनुपूर्णा भवन) एवं जन सुविधा केंद्र का निर्माण कार्य	9,90,000/-	19,800/-	766	3 माह

नियम व शर्तों-
1. असेंस्टेड मनी निविदा डालने के समय नगद/एन०एससी० / एफ०डी०आर०/पासबुक के रूप में दी जा सकती है, जो ग्राम पंचायत फरफाना विकास खण्ड भोजपुर (गर्जियाबाद) के पदनाम से बन्धक हो की जा सकती है।
2- कार्य पी०ब्ल्यू०डी० की विशिस्टयों के अनुसार होगा।
3- निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार अघोहस्ताक्षरी का होगा।
4- निविदा केवल सरकारी विभाग में पंजीकृत ठेकेदारों को ही देय होगी
5- ठेकेदारों का पंजीकरण उप श्रमायुक्त गार्जियाबाद के यहां अवश्य होना चाहिए, तथा ठेकेदारो को प्रत्येक कार्य का पंजीकरण उप श्रमायुक्त कार्यालय गार्जियाबाद में कराना अनिवार्य होगा।
6- निविदा प्रपत्र का मूल्य 100 रु० को नॉन ज्युडिशियल स्ट्याम्प पेपर पर रसीदी टिकिट के साथ लये।
7. नियमानुसार सभी शासकीय कर्तवियों की जायगी।
8. अन्य नियम व शर्तें लागू रहेगी।

सविध, ग्राम पंचायत फरफाना विकास खण्ड भोजपुर	प्रधान, ग्राम पंचायत फरफाना विकास खण्ड भोजपुर
--	--

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, <p>जन स्वा. अभि. विभाग, नगर खण्ड प्रथम कोटा</p> <p>-: निविदा सूचना संख्या 13/2025-26:-</p> <p>UBM Code: PHE 2526WSOB10245</p>
--

समुचित वर्ग के सूचीबद्ध सक्षम ठेकेदारों से विभाग के निम्न कार्य करने हेतु राज्यस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से राज्यस्थान लोक उपायन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम 2013 के अन्तर्गत पेरचल कार्यों से सम्बन्धित सेवाओं के उपायनों के सम्बन्ध में दिशा-निर्देशानुसार ई-प्रोक्यूरमेंट प्रक्रिया द्वारा ऑन लाईन निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा हेतु नियमानुसार विहित अधिन धनराशि देने के पश्चात निविदा हेतु पात्र होंगे, निर्धारित प्रपत्र में ई-प्रोक्यूरमेंट प्रक्रिया हेतु ऑनलाईन निविदाएं दो लिफाफा पद्धति में आमंत्रित की जाती है। निविदा फार्म ऑनलाईन वेबसाइट <http://www.eproc.rajasthan.gov.in> से दिनांक 06.01.2026 प्रातः 10:00 बजे से डाउनलोड किये जा सकते है। ऑनलाईन निविदाएं इसी वेबसाइट पर इच्छुक संवेकों द्वारा दिनांक 06.01.2026 से दिनांक 27.01.2026 तक सायं 6:00 बजे तक अपलोड किये जा सकते है। वेबसाइट पर उनके सम्मुख दिनांक 28.01.2026 को इस कार्यालय में सोपार 2:00 बजे खोली जायेगी। यदि किसी कारणवश उस दिन अवकाश रहता है तो उसके आगले दिन बाढ़ दिवस को उसी समय पर निविदा खोली जायेगी। निविदा शुल्क/प्रक्रिया शुल्क निविदादाता और लाइन चारन द्वारा निविदा प्रपत्रों में बतान अनुसार इस कार्यालय में सभी निविदा प्राप्ति की दिनांक 28.01.2026 तक को दोपहर 01:00 बजे तक जमा करवाना आवश्यक है। निविदा से सम्बन्धित विस्तृत विवरण निम्नलिखित वेबसाइट पर देखे जा सकते हैं:-

- <http:// phedwater.raajasthan.gov.in>
- <http://www.eproc.raajasthan.gov.in>
- www.dipronline.in
- <http://sppp.raajasthan.gov.in>

"जल ही जीवन है"	हस्ता/- (अधिकृत निष्ठा) अधिशाषी अभियन्ता जनस्वास्था अभियांत्रिकी विभाग नगर खण्ड प्रथम कोटा
DIPR/C/80/2026	

<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div></div></div> <div> <div>केन फिन् होम लि.</div> <div>डीएफ फिडिन्ग, फहरी मोडल, निक्ट पास सिमेन्ट, मेहड़ प्लेस, नई दिल्ली-110019 दूरभाष 011-26430288 / 7926079169 ईमेल- delhi@canfinhomes.com सीओएन- L55110KA1987PLC008699</div> </div>	
माँग सूचना	
‘वित्तीय आसितयों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का सं 54) की धारा 13(2) के अधीन	

- सेवा में-
- श्री प्रदीप सिंह भास्कर पुत्र ऋषिपाल सिंह भास्कर (उधारकर्ता)** टावर नंबर सी-2, फ्लैट नंबर-1602, सुपर टेक इको विलेज-1, ग्रेटर नोएडा सेक्टर-19-201301 अन्य पता: ए०-11/ 48/ 1बी, राजीव मार्केटडॉट्स यमुना कॉलोनी, फेज-1, रामगढ़ा, आगरा उत्तर प्रदेश-282006 अन्य पता: प्लॉट नं. 23, खसरा नंबर 773 मिट, श्री राम सिटी-2, मां विरसख जलालपुर, परगना एवं तहसील दादरी गौम बुद्ध नगर-201306
 - श्रीमती पूजा भास्कर पत्नी प्रदीप सिंह भास्कर (सह-उधारकर्ता)** टावर नंबर सी-2, फ्लैट नंबर-1602, सुपर टेक इको विलेज-1, ग्रेटर नोएडा सेक्टर-19-201301 अन्य पता: ए०-11/ 48/ 1बी, राजीव मार्केटडॉट्स यमुना कॉलोनी, फेज-1, रामगढ़ा, आगरा उत्तर प्रदेश-282006 अन्य पता: प्लॉट नं. 23, खसरा नंबर 773 मिट, श्री राम सिटी-2, मां विरसख जलालपुर, परगना एवं तहसील दादरी गौम बुद्ध नगर-201306

नं. 1 एवं 2, आपने हमारी शाखा से श्री प्रदीप सिंह भास्कर पुत्र ऋषिपाल सिंह भास्कर की निम्नलिखित संपत्ति को गिरीय रखने की जमानत पर आवास ऋण लिया है। रुपये राशि रु. 20,56,413/- (रुपय बीस लाख छपन हजार चार सौ ररेस मात्र) 02.01.2026 को केंद्र निन होसल लिमिटेड को अनुबंधित दर पर मबिध के ब्याज व अन्य व्यय के साथ देय है।

बन्धक रखी आसित का विवरण

प्लॉट नंबर 23, खसरा नंबर 773मिन, श्री राम सिटी-2, बिरसख जलालपुर, दादरी, गौम बुद्ध नगर-201306। संपत्ति की चौहद्दी यह प्रकार है:-

उत्तर: प्लॉट नंबर 24 पूर्व सड़क

दक्षिण: प्लॉट नंबर 22 पूर्वधन आर्य जमीन

पूर का सरकारी एरेंट, 2002 की धारा 13(2) के अधीन पंजीकृत मांग सूचना क्रमांक 1 एवं 2 को प्रेषित की गई थी। परंतु सूचना बिना सुसुदरी वापस प्राप्त की जा चुकी है। अतएव अघोहस्ताक्षरी ने उक्त अधिनियम के अनुसार उक्त कर्जदार/रों के अंतिम ज्ञात पते के परिसर पर चप्पा करवा दी है। अतः समाचार पत्र में यह सूचना प्रकाशित की जा रही है। चूँकि आप मंजूरी की शर्तों का जालन करने में असफल रहे हैं, अतः हद खाता एनएचसी के दिशानिर्देशों के अनुसार दिनांक 29.12.2025 को आपने अतिरिक्त कर्जदारों/ गारंटटोरों का ध्यान, प्रच्युतम्प आसितयों को घुडाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (g) के प्रावधान की ओर आकृष्ट किया जाता है।

दिनांक: 07.01.2026	हस्ता: /—
स्थान: नई दिल्ली	प्राधिकृत अधिकारी
	केन फिन होम्स लिमिटेड

फॉर्म सं. 16 [नियम 33(3) देखें] सभी अनुमत माध्यम से	
वसूली अधिकारी – I/II का कार्यालय ऋण वसूली अधिकरण दिल्ली (डीआरटी 1) चौधी मंजिल, जीवन तारा बिल्डिंग, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली-110001	
नियम 48 के तहत अवल संपत्ति की कुर्को का वारंट	
आयकर अधिनियम, 1961 की दूसरी अनुसूची के साथ पठित ऋण वसूली और दिवालियापन अधिनियम, 1993	
टीआरसी/115/2022	11-11-2025
पंजाब नेशनल बैंक बनाम मैसर्स विनोद स्टील ट्यूब	

सेवा में (सीडी1) मैसर्स विनोद स्टील ट्यूब, इसके प्रोप्राइटर – नरेंद्र पाल सिंह, पी. माधव से, दुकान नं. 4, प्लॉट नं. 86, प्रकाश इंडस्ट्रियल एस्टेट, यू.पी. बॉर्डर साहिबाबाद, गार्जियाबाद (उ.प्र.) साथ ही- 29, प्रकाश इंडस्ट्रियल एस्टेट, यूपी बॉर्डर, साहिबाबाद, गार्जियाबाद (उ.प्र.)। (सीडी2) नरेन्द्र पाल सिंह, पुत्र उदय सिंह, दुकान नं. 4, प्लॉट नं. 86, प्रकाश इंडस्ट्रियल एस्टेट, यू.पी. बॉर्डर, साहिबाबाद, गार्जियाबाद (उ.प्र.) साथ ही- प्लॉट नं. 48, सेक्टर-5, राजेंद्र नगर, साहिबाबाद, गार्जियाबाद (उ.प्र.)-201005. साथ ही- मकान नं. 729, विलासनगर, तहसील दादरी, जिला-मिर्जापुर। (हरियाणा) (सीडी3) महावीर प्रसाद जैन पुत्र यशवीर गुलाब चंद जैन, 100, राम विहार, दिल्ली-110092। साथ ही- डी-251, निर्माण विहार, दिल्ली-110092. साथ ही- बोडी-33, एफएफ ब्लॉक बोडी, साउथ पौमपुरा, दिल्ली। (सीडी4) शंकर लाल, गोपाल पुत्र हरकेश गोयल, किमी-1, कवि नगर गार्जियाबाद (उ.प्र.)। जबकि (सी.डी.) से 29.01.2014 से वसूली तक 13% को दर से पेंडेडलाइट और बावी ब्याज के साथ रु. 4,90,40,044 की राशि और रु. 1,50,000.00 का व्यय, जो आत्को ऋण वसूली अधिकरण दिल्ली (डीआरटी 1) के पीठासीन अधिकारी द्वारा जारी किए गए प्रमाणपत्र नंबर आरसी/115/2022 के संबंध में देना था, का भुगतान करने में विफल रहे हैं। जबकि (सी.डी.) को ऋण वसूली अधिकरण दिल्ली (डीआरटी 1) के पीठासीन अधिकारी द्वारा, निम्नोदेन ओए/81/2014 में 22/03/2017 को वसूली प्रमाणपत्र जारी किया था, प्रमाणपत्र धारक (एफ.एफ.आई. को 29.01.2015 से वसूली तक 13% को दर से पेंडेडलाइट और भावी ब्याज के साथ रु. 4,90,40,044.00 और रु. 1,50,000.00 का व्यय देने का आदेश दिया गया था, और जबकि उक्त राशि का भुगतान नहीं किया गया है।

2. यह आदेश दिया जाता है कि आपको, जैसा कि उल्लिखित है, प्रमाणपत्र देनदार के रूप में, हस्ताक्षरी के आगले आदेश तक, नीचे बताई गई संपत्ति को किसी भी तरह से हस्तांतरित करने या बंधक रखने से प्रतिबंधित किया जाता है, और सभी व्यक्ति को ऐसे हस्तांतरण या बंधक से कोई भी लाभ लेने से प्रतिबंधित किया जाता है।

3. आपको किसी की घोषणा की शर्तों को तय करने के लिए निर्धारित तिथि की सूचना लेने के लिए 20/01/2026 को सुबह 10:30 बजे ऋण वसूली अधिकरण दिल्ली (डीआरटी 1) के वसूली अधिकारी के सामने उपस्थित होना होगा।

संपत्ति का विवरण	संपत्ति का प्रकार	संपत्ति का विवरण
अवत संपत्ति	संपत्ति को संख्या 1-6145ए, मली नं. 5, ईस्ट ग्रेहावा नगर, शाहदरा, दिल्ली-110032	
मेरे हस्ताक्षर और अधिकरण की मुहर के साथ, इस तारीख: 11/11/2025 को		
निर्बन्धन प्रमं. वसूली अधिकारी-II (ऋण वसूली अधिकरण दिल्ली (डीआरटी 1))		

“फॉर्म नं. आधारपसी-25ए”	
सार्वजनिक कंपनी को निजी कंपनी में बदलने के लिए समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाने वाला विज्ञापन	
क्षेत्रीय निदेशक, कारपोरेट मामलों का मंत्रालय, उत्तरें क्षेत्र, दिल्ली-110003	
कंपनीज (उन्मायकारी) नियमों, 2014 के नियम 41 और कंपनीज अधिनियम, 2013 की धारा 14 तथा कंपनीज अधिनियम, 2013 के विषय में और	
लिटिल किंगडम एडुटेक लिमिटेड (CIN: U70101DL2000PLC104879) जिसका पंजीकृत कार्यालय प्लॉट नंबर 973, खसरा नंबर 30/13 पारम एक्स्टेंशन पार्क-1, दिल्ली-110075 में है।आवेदक सामान्य जनता को एतद्वारा सूचना दी जाती है कि कंपनी ने ऊपरस्थित नियमों के साथ पठित अधिनियम, 2013 की धारा 14 के अंतर्गत कंपनीज अधिनियम, 2013 की धारा 14 के अंतर्गत करने की इच्छुक है तथा इस बदलाव को लागू करने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने के लिए 01/12/2025 को आयोजित असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार	
कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड में बदलने की इच्छुक है। कंपनी के प्रस्तावित बदलाव/स्थिति द्वारा प्रभावित होने वाले कोई व्यक्ति, अपनी आपत्ति इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह (14) दिनों के अन्दर संबंधित क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, बी-2 विंग, द्वितीय तल, पं. दीनदयाल अन्तोदय भवन, द्वितीय तल, सीजीओ कम्प्लेक्स, नई दिल्ली- 110003 को विवेक के कारण तथा हित की प्रकृति वर्णित करने वाले सभ्य-पत्र द्वारा समर्थित आपत्तियों को पंजीकृत डाक द्वारा भेजें या हिलीयर करें और इसकी प्रति आवेदक कंपनी के ऊपर वर्णित पते पर पंजीकृत कार्यालय पर भेजें:	
हिये एवं कृते आवेदक	
लिटिल किंगडम एडुटेक लिमिटेड	
हस्ता/- प्रतीक अधिकारी	
दिनांक: 08.01.2026	निदेशक
स्थान: दिल्ली	DIN: 01249588

“फॉर्म नं. आधारपसी-25ए”	
सार्वजनिक कंपनी को निजी कंपनी में बदलने के लिए समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाने वाला विज्ञापन	
क्षेत्रीय निदेशक, कारपोरेट मामलों का मंत्रालय, उत्तरें क्षेत्र, दिल्ली-110003	
कंपनीज (उन्मायकारी) नियमों, 2014 के नियम 41 और कंपनीज अधिनियम, 2013 की धारा 14 तथा कंपनीज अधिनियम, 2013 के विषय में और	
लिटिल किंगडम एडुटेक लिमिटेड	
हस्ता/- प्रतीक अधिकारी	
दिनांक: 08.01.2026	निदेशक
स्थान: दिल्ली	DIN: 01249588

ऋण वसूली व्यापारिकरण-I दिल्ली चौधी मंजिल, जीवन तारा बिल्डिंग, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली-110001 ओएन नं. 162/ 2025 बैंक ऑफ बडोई आवेदक नाम ओय राहस्ट्रेटिंग कंपनी प्राई प्रतिवादी सेवा में- 1. मैसर्स ओय राहस्ट्रेटिंग प्राई कंपनी प्राई खसरा नं. 1611, एम विहार कॉलोनी, लोनी, गार्जियाबाद, उत्तर प्रदेश-201102 2. यशवीर लाल, खसरा नं 506, ग्राम बन्वात विहार, लोनी नई रोडवेज के पास, लोनी, गार्जियाबाद, उत्तर प्रदेश-201101 3. बी.जी.फार्मा प्राई निवासी खसरा नं. 223, रामगढ़ा, उत्तर प्रदेश, लोनी, देहला गार्जियाबाद उत्तर प्रदेश-201102 4. यशवीर लाल, खसरा नं 51, श्री राजावाहन प्रसिध्दगढ़ी नगर, बाद, एनओ मधुवायूरी-281006	
जबकि ऊपर बताए गए आवेदक ने आपके खिलाफ रु. 26,68,852/- (एब्सीस लाख अड़सठ हजार आठ सौ भावन करो मारु) की वसूली के लिए एक अर्पण दायर किया है और जबकि टिप्पण्यो की यह संबंधक ऋण से दिखाया गया है कि आपको सामान्य तरीके से नोटिड कर दिया गया है। इसलिए, यह नोटिड विज्ञापन द्वारा दिया जा रहा है, जिसमें आपका 08.04.2026 को बयानपत्र रिजल्टर के सामने पेश होने का निर्देश दिया जाता है (अधिक जानकारी के लिए कृपया DRT वेबसाइट www.tribunal.gov.in पर जाएं, फोन नंबर 011-23748473)	

कृपया ध्यान दें कि यदि आप उपर्युक्त तिथि को इस व्यापारिकरण के समक्ष उपस्थित नहीं होते हैं तो आप अपनी कुसुमबद्ध और निर्णय आपकी अनुपस्थिति में किया जाएगा।

I. सभी संबंधित व्यक्ति अपने मामलों में हाइड्रेंट मोड (व्यापार) में प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित होना और किसी बैंक/एनबीसी बैंक के माध्यम से भी भाग ले सकते हैं।

II. बी.सी. के माध्यम से ऑनलाइन उपस्थिति के लिए सभी अधिनियम/बाधिकाय तिरको वेबसाइट एप्लिकेशन/ सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके;

III.आमदार बी.सीसीन अधिकारी/रजिस्ट्रार/ वसूली अधिकारी- I/ और वसूली अधिकारी- II द्वारा निर्धारित अपने मामलों की कुसुमबद्ध और वसूली तिथि के लिए निर्देश जारी करें और पारदर्शी ऑनलाइन प्रक्रिया में एक तिथि पर एक बैंक/एनबीसी बैंक के माध्यम से भी भाग ले सकते हैं।

IV. किसी भी आपत्ति विषय में अधिनियम/बाधिकाय संबंधित अधिकारी से भेषा नं. 23748473 पर संपर्क कर सकते हैं।

यह दिनांक 08.04.2025 को मेरे हस्ताक्षर और व्यापारिकरण की मुहर के साथ दिया है।

इस व्यापारिकरण के आदेश से

फॉर्म सं. 14 [नियम 33(2) देखें] पंजीकृत ए.डी. या दस्ती हस्ता, विफल रहने पर प्रकाशित के माध्यम से वसूली अधिकारी – I/II का कार्यालय ऋण वसूली अधिकरण दिल्ली (डीआरटी 1)	
4थी मंजिल, जीवन तारा बिल्डिंग, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली-110001	
मांग सूचना ऋण वसूली और दिवाल अधिनियम, 1993 की धारा 25 से 28 और अधिनियम, 1961 की दूसरी अनुसूची के नियम 2 के तहत सूचना आरसी 147/2023	18.11.2025
आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड बनाम अमित कुमार	
सेवा में, (सीडी1) अमित कुमार, पुत्र नरेस कुमार शर्मा, मकान नं. जी-92, गली नं. 22, राजगुरी, उत्तम नगर, नई दिल्ली-110059	
अन्य पता: फ्लैट नं. ए-161, 16वीं मंजिल, टावर-ए, एफआईएस, प्लॉट नं. जीएफ-02/सी, सेक्टर-12, गौतम बुद्ध नगर, ग्रेटर नोएडा सेट, नोएडा-201307	
(सीडी2) सुमन देवी प्रती अमित कुमार, मकान नं. जी-92, गली नं. 22, राजगुरी, उत्तम नगर, नई दिल्ली-110059	
अन्य पता: फ्लैट नं. ए-161, 16वीं मंजिल, टावर-ए, एफआईएस, प्लॉट नं. जीएफ-02/सी, सेक्टर-12, गौतम बुद्ध नगर, ग्रेटर नोएडा सेट, नोएडा-201307	
(सीडी3) मैसर्स वैल्यू इंग्रानिल्ड इंडिया प्रा. लि., 715, नीलम हाउस-21, बस्तरवा गांधी मार्ग, नॉरेंट प्लेस, नई दिल्ली-110001	
अन्य पता: एच-198, द्वितीय तल, सेक्टर-63, नोएडा-201301	

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि ओ.ए.69/2017 में पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण दिल्ली (डीआरटी 1) द्वारा पारित आदेशों के अनुकरण में जारी वसूली प्रमाणपत्र के अनुसार, आकर विव्दर रु. 29,81,733.78/- की राशि के साथ 27/01/2017 से वसूली होने तक 12% वार्षिक साधारण ब्याज और रु. 20,000/- (रुपय बीस हजार मात्र) को सक्षम बनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (g) के प्रावधान की ओर आकृष्ट किया जाता है।

2. एतद्वारा आपको नोटिफिक किया जाता है कि आप इस सूचना की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर उपरोक्त राशि का भुगतान करें, विफल रहने पर वसूली बैंकों और विविध संस्थानों को देय ऋण की वसूली अधिनियम, 1993 और उसके नियमों के अनुसार की जाएगी।

3. आपको आदेश दिया जाता है कि सुनवाई में आपकी तारीख को या उससे पहले एक शपथ पत्र पर अपनी संपत्तियों का विवरण घोषित करें।

4. आपको आगे की कार्यवाही के लिए दिनांक 23.03.2026 को सुबह 10:30 बजे अघोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होने का आदेश दिया जाता है।

5. उपरोक्त राशि के अतिरिक्त, आप निम्नलिखित भुगतान के लिए भी उत्तरदायी होंगे:

(क) प्रमाणपत्र/निष्पत्तन काव्योक्ति के इस सूचना के तुरंत बाद की अवधि के लिए देय ब्याज।

(ख) इस सूचना, वारंट और अन्य प्रक्रियाओं की तामील के संबंध में और देय राशि की वसूली के लिए की गई अन्य सभी कार्यवाहियों में खर्च की गई समस्त लागत, शुल्क और ब्याज।

आप्त दिनांक 18.11.2025 को मेरे हस्ताक्षर और अधिकरण की मुहर के तहत जारी किया गया।

निर्बन्धन प्रमं। वसूली अधिकारी-II

ऋण वसूली अधिकरण दिल्ली (डीआरटी 1)

HDFC BANK We understand your world	एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, गुलाब भवन, भुलाल, 6, बहादुर शाह जफर मार्ग, न्यू आईडीओ, दिल्ली-110002
कच्चा-नोटिस	
[प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(1) तहत]	
जबकि, अघोहस्ताक्षरी, वित्तीय संस्थानों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत एचएफसी बैंक लिमिटेड के अधिभूत अधिकारी होने के नाते और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए दिनांक 23.10.2025 को मांग नोटिस जारी किया जिसमें उधारकर्ता(ओं) 1. मैसर्स हरियाणा ट्रेडर्स (उधारकर्ता), 2. श्री सुविर कुमार जिलाल (मालिक और गारंटर) और 3. सुशी प्रताप गुप्ता (गारंटर और बंधककर्ता) को नोटिस में उल्लिखित दिनांक 23.10.2025 तक रु. 4,47,76,385.30 (चार करोड़ सैतालीस लाख छित्तर हजार तीन सौ पचासी रुपये और तीस पैसे मात्र) साथ ही मबिध के ब्याज, लागत और अन्य खर्चों का भुगतान उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर करने को कहा गया है।	
उधारकर्ता राशि को चुकाने में विफल रहे हैं, उधारकर्ता/ गारंटर/ गिरवीदार और आम जनता को यह सूचित किया जाता है कि अघोहस्ताक्षरी ने उक्त नियम के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत, उक्त प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्ति पर	
6 जनवरी वर्ष 2026 को कच्चा कर लिया है।	
विशेष रूप से उधारकर्ता/ गारंटर/ गिरवीदारी और आम जनता को एतद्वारा आگاه किया जाता है उक्त संपत्तियों के साथ सीधा न करें और किसी भी तरह का लेन-देन करने पर	
23.10.2025 तक रु.4,47,76,385.30 (चार करोड़ सैतालीस लाख छित्तर हजार तीन सौ पचासी रुपये और तीस पैसे मात्र) एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा।	
प्रतिभूति परिसरों को भुताने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 के उप-धारा (g) के प्रावधानों के तहत उधारकर्ता का ध्यान आकर्षित किया जाता है।	
अवल संपत्ति का विवरण	
"विनार, रामपुरा नई दिल्ली-110035 में स्थित चौकड़ी मुबारकबाद गांव, खसरा संख्या 189, पुराने प्लॉट संख्या 1 के भाग, निर्मित संपत्ति/ प्लॉट संख्या 4215 (निजी संख्या 4215-बी) का संपूर्ण भाग एम अंश, जिसका क्षेत्रफल 68.97 वर्ग मीटर है, जिसमें वर्तमान और मबिध में निर्मित भवन और संरचनाएं आदि शामिल हैं।"	
दिनांक- 08/ 01/ 2026, स्थान- नई दिल्ली	प्राधिकृत अधिकारी, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड

नियम व शर्तों-
1. असेंस्टेड मनी निविदा डालने के समय नगद/एन०एससी० / एफ०डी०आर०/पासबुक के रूप में दी जा सकती है, जो ग्राम पंचायत मकमतपुर सिखड़ा विकास खण्ड भोजपुर (गर्जियाबाद) के पदनाम से बन्धक हो की जा सकती है।
2- कार्य पी०ब्ल्यू०डी० की विशिस्टयों के अनुसार होगा।
3- निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार अघोहस्ताक्षरी का होगा।
4- निविदा केवल सरकारी विभाग में पंजीकृत ठेकेदारों को ही देय होगी
5- ठेकेदारों का पंजीकरण उप श्रमायुक्त गार्जियाबाद के यहां अवश्य होना चाहिए, तथा ठेकेदारो को प्रत्येक कार्य का पंजीकरण उप श्रमायुक्त कार्यालय गार्जियाबाद में कराना अनिवार्य होगा।
6- निविदा प्रपत्र के साथ 100 रु० को नॉन ज्युडिशियल स्ट्याम्प पेपर पर रसीदी टिकिट के साथ लये।
7. नियमानुसार सभी शासकीय कर्तवियों की जायगी।
8. अन्य नियम व शर्तें लागू रहेगी।